

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032025-261434  
SG-DL-E-04032025-261434असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 79]  
No. 79]नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2025/फाल्गुन 10, 1946  
DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 2025/PHALGUNA 10, 1946[रा.रा.क्षे.दि. सं. 431  
[N. C. T. D. No. 431भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2025

फा.सं.11/31/एच-डीओपी/2024/134-142.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित की स्थापना करते हैं—

- (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्य स्तर पर अभियोजन निदेशालय, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और 5 अभियोजन उप-निदेशक सम्मिलित होंगे;
- (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक न्यायिक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय, जिसमें 13 अभियोजन उप-निदेशक और 22 अभियोजन सहायक निदेशक सम्मिलित होंगे।
- यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
यश पाल, उप-सचिव (गृह)

**HOME DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 28th February, 2025

**F. No. 11/31/H-DOP/2024/134 -142.**— In exercise of power conferred by clause (a) and (b) of subsection (1) of section 20 of The Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification bearing No. S.O.2506 (E) dated 28<sup>th</sup> June, 2024 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to establish the following:

- (a) Directorate of Prosecution in National Capital Territory of Delhi at State Level consisting of one Director of Prosecution and 5 Deputy Directors of Prosecution;
- (b) District Directorate of Prosecution in each Judicial District of National Capital Territory of Delhi consisting of 13 Deputy Directors and 22 Assistant Directors of Prosecution.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi

YASH PAL, Dy. Secy. (Home)